



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 18 जनवरी, 2023

पौष 28, 1944 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग-9

संख्या 115/छ:-पु०-9-2023

लखनऊ, 18 जनवरी, 2023

अधिसूचना

(शक्ति)

प०आ०-44

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) की धारा 21 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदया, विधान परिषद के स्नातक/शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से द्विवार्षिक निर्वाचन, 2023 के सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, जालौन, झांसी, ललितपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, बदायूँ, रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, सम्भल, बहराइच, श्रावस्ती, गोण्डा, बलरामपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, सन्तकबीरनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, आजमगढ़, मऊ, सुलतानपुर, अयोध्या, अमेठी एवं अम्बेडकरनगर में तैनात राज्य सरकार के समस्त विभागों के समस्त राजपत्रित अधिकारियों और अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारियों तथा राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन पर नियंत्रणाधीन स्थानीय प्राधिकरणों एवं निगमों/निकायों के वेतन बैण्ड-2 रुपये 9300-34800, ग्रेड वेतन रूपया 4600/- पुनरीक्षित वेतन का पद धारण करने वाले समस्त अधिकारियों को उच्चतर वेतन बैण्ड/वेतन मैट्रिक्स लेवल-7 रू० 44900-142400 या उससे उच्चतर वेतन बैण्ड/वेतन मैट्रिक्स लेवल का पद धारण करने वाले समस्त अधिकारियों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां दिनांक 30 जनवरी, 2023 के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिन्हें विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में जाना जायेगा, नियुक्त करती हैं और ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को उक्त संहिता के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को प्रदान की जा सकने वाली समस्त शक्तियां प्रदान करती हैं, जिनका प्रयोग वे अपने जिले की सीमाओं के भीतर कर सकेंगे, जिसमें वे तत्समय तैनात हैं।

आज्ञा से,
डा० बी० डी० पॉल्सन,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 115/VI-P-9-2023, dated January 18, 2023:

No. 115/VI-P-9-2023

Dated Lucknow, January 18, 2023

IN exercise of the power under section 21 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974), the Governor is pleased to appoint all Gazetted Officers and Subordinate Gazetted Officers of all departments of the State Government and all officers holding posts carrying the Pay Band-2 Rs. 9300-34800, Pay Grade Rs. 4600 and above in Local Authorities and Corporations or Bodies owned and controlled by the State Government, posted in the districts-Prayagraj, Kaushambi, Fatehpur, Banda, Chitrakoot, Hamirpur, Mahoba, Jalaun, Jhansi, Lalitpur, Kanpur Nagar, Kanpur Dehat, Unnao, Bareilly, Pilibhit, Shahjahanpur, Budaun, Rampur, Moradabad, Amroha, Bijnor, Sambhal, Bahraich, Shravasti, Gonda, Balrampur, Basti, Siddharthnagar, Sant Kabir Nagar, Gorakhpur, Maharajganj, Deoria, Kushinagar, Azamgarh, Mau, Sultanpur, Ayodhya, Amethi and Ambedkar Nagar of Uttar Pradesh in biennial elections-2023 for Uttar Pradesh Legislative Council of Graduate/Teacher election areas as Executive Magistrates to be known as Special Executive Magistrates dated January 30, 2023 and to confer on them all the powers of the Executive Magistrates as are conferrable under the said Code on such Executive Magistrates, to be exercised within the limits of respective districts in which they are for the time posted.

By order,

Dr. B. D. PAULSON,

Sachiv.